

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल दरभंगा-1
email-eerwddarbhangal@gmail.com

पत्रांक :- 2182 अक/प्रेषक,

लहेरियासराय दिनांक 22/10/2022

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1

अपर-मुख्य-कार्यपालक-पदाधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग,
ब्राडा, पटना।

विषय:- शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सम्पक (MMGSY S.C) योजना अन्तर्गतराशि की अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में शीर्ष 4515 मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क (S.C) योजना अन्तर्गत विहित प्रपत्र में संलग्न पथ के लिए राशि की अधियाचना की जा रही है। अतः अनुरोध है कि रु0 13.00876 (तीरह आठ सै छियत्तर) रुपये मात्र का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि संवेदक के जी0एस0टी0 दावा से संबंधित लंबित भुगतान किया जा सके। ज्ञातव्य हो कि संवेदक द्वारा जी0एस0टी0 दावा से संबंधित विभागीय पत्रांक 711 अनु0 दिनांक 26.07.2021 द्वारा प्रमंडल स्तर से भुगतान करने का निदेश प्राप्त है।

अनु0:- विभागीय आदेश का छाया प्रति।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1


22-10-22


22-10-22

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (1) below Rule- 150)

Form of Utilisation Certificate up to dated 20.10.2022

M.M.G.S.Y. (S.C)

PIU- RWD, Works Division, Darbhanga-1

Sl. No	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (in Rs. Lakh)	Amount Received (in Rs. Lakh)	Particulars
1	Construction of Rural roads under MMGSY. (S.C)	BRRDA, Patna. Lt No-66 WE dt.-30.04.2019 BRRDA, Patna. Lt No- dt.-02.05.2022 (CFMS)	5819.73183 4378.61886	Certified that out of 5819.73183 Lakh & Rs4378.61886 Lakh (CFMS) received till 10.05.2022 In favour of Executive Engineer, RWD Bihar work division Darbhanga-1. A sum of Rs5799.05425 Lakh & Rs4176.11784 Lakh (CFMS) has been utilized for the purpose of MMGSY (S.C) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs20.67758 Lakh & Rs111.15551 Lakh (CFMS) remaining unutilized at the end of the period under.
	Total		10198.35069	

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants in aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of Checks exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Construction materials have tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conduction by the Assistant Engineer/ Executive Engineer
- All other codal formalities have been observed.

Physical Progress achieved :-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.

D. A. O. 22-10-22
R.W.D. Works Division
Darbhanga-1

Executive engineer,
R.W.D. Works Division
Darbhanga-1

22.10.22

कार्य प्रमंडल का नाम :- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल दरभंगा-1

कार्य अंचल का नाम:- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल दरभंगा।

योजना शीर्ष का नाम:- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (एस0 सी0)

S. NO.	Year	Block	Name of Road	Name of Contractor	Agreement No.	Administrative Section		Agreement Amount (In Lacs)		Allotment Received (In Lacs)	Total Expenditure As Per MB/MIS	Value of Measurement (In Lacs)	Current Demands (In Lacs)	Remarks
						Length (In km)	Amount (In Lacs)	Construction Work	Maint. Cost					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2017-18	Hayaghat	Anandpur PWD Road to Madhupatti Mahadait Tola	ASHOK KUMAR THAKUR	63SBD/2018-19	0.850	55.38300	55.40734	2.97184	52.29670	52.29670	55.44591	3.14921	Physical Work Complete/ GST Claim
2	2017-18	Hayaghat	PTUAR to PTUAR DHANUK TOLA	ASHOK KUMAR THAKUR	64SBD/2018-19 56 Revised SBD/2021-22	0.700	46.36700	53.53128	3.29501	42.87835	42.87835	45.89544	3.01709	Physical Work Complete/ GST Claim
3	2017-18	Hayaghat	LAXMIPUR MUKH SARAK to LAXMIPUR MISHRA TOL	ASHOK KUMAR THAKUR	65SBD/2018-19	0.565	32.73000	31.88931	2.83306	29.80104	29.80104	31.87543	2.07439	Physical Work Complete/ GST Claim
4	2018-19	Hanuman Nagar	Khatway tola to Ahila	Ashok Kumar Thakur	52 SBD/2018-19	1.025	76.230	79.77213	5.07247	74.90755	74.90755	79.67562	4.76807	Physical Work Complete/ GST Claim
													13.00876	

Divisional Accounts Officer
R.W.D. Work Division, Darbhanga-1

Executive Engineer
R.W.D. Work Division, Darbhanga-1

22.10.22

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:- BRRDA(HQ)-MMGSY-482/20 435 मं. /पटना, दिनांक- 2-7-21

प्रेषक,

ई० अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1।

विषय:-MMGSY योजनान्तर्गत Construction of Road with maintenance work from Pator to Pator Dhanuk Tola में GST Claim की राशि के भुगतान के संबंध में।

प्रांग:-मुख्य अभियंता-3 का पत्रांक-11/मु0अ0-3, तदस्वी0-18-431/18-9933 अनु0 दिनांक-14.12.2020।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम-2017 के लागू होने के उपरांत वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार ने कार्य अनुबंध (Work Contracts) पर अनुमान्य GST की गणना एवं संवेदकों को चालू/अंतिम विपत्र के भुगतान के संबंध में विभिन्न परिपत्र निर्गत किये गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण संरचना विकास अभिकरण ने भी कार्य अनुबंधों पर GST लागू करने के संबंध में Circular No.- NRRDA-G021(17)/32017-FA दिनांक-06.06.2018 निर्गत किया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा भी पत्रांक-BRRDA(HQ)-MMGSY(WB)-364/15-1059 अनु0 दिनांक-05.12.2018 द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संवेदकों के विपत्र भुगतान एवं GST के दावों के निपटारे के संबंध में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, सभी कार्य प्रमंडल को आवश्यक निर्देश जारी किया गया है।

इसी क्रम में Work Contracts में GST Claim के राशि के भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर की गई याचिका CWJC No.-1452 of 2019 के मामले पर सुनवाई करते हुए दिनांक-05.07.2019 को आदेश दिया गया है। दिनांक-05.07.2019 को पारित आदेश की प्रति दिशानिर्देश के लिए पत्र के साथ संलग्न है। न्यायिक आदेश में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक-12.12.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के Para-VII का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। बैठक की कार्यवाही के Para-VII में वर्णित है :- "GST लागू होने के पश्चात की अवधि में जो कार्य प्रगति पर है अथवा समाप्त हो चुके हैं अथवा GST लागू होने के पूर्व निविदा आमंत्रित किया जा चुका था एवं GST लागू होने के पश्चात कार्य आवंटित हुआ है, ऐसे कार्यों के

लिए GST में अन्तर राशि का भुगतान तबतक नहीं किया जाएगा जबतक कि संवेदक द्वारा GST का Return दाखिल नहीं कर दिया जाता है। इसके पश्चात संवेदक को GST का भुगतान Claim के माध्यम से किया जाय।”

GST Claim प्राप्त करने के लिए संवेदक द्वारा समर्पित किए गए GST Return एवं अन्य दस्तावेजों की सत्यता जाँच, गणना एवं मिलान के उपरांत भुगतान कार्य प्रमदल का दायित्व है।

उक्त के संदर्भ में निदेश दिया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक-12.12.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.-1452 दिनांक 05.07.2019 में पारित न्यायादेश के आलोक में Pator to Pator Dhanak Tola एवं संवेदक को GST Claim की नियमानुकूल राशि का भुगतान करने की कार्रवाई की जाए।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासनाजन

(अशोक कुमार निषा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- BRRDA(HQ)-MMGSY- 482/20 635 /पटना, दिनांक- 2.7.21

प्रतिलिपि :-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अर्चल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार निषा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-MMGSY- 482/20 635 /पटना, दिनांक- 2.7.21

प्रतिलिपि :-मुख्य अभियंता-3 को उनके पत्रांक-11/मु०अ०-3-त०स्वी०-18-43 /19-9933 अनु० दिनांक-14.12.2020 के आलोक में समर्पित किए गए मूल दस्तावेज संलग्न करते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

अ

(अशोक कुमार निषा)
अभियंता प्रमुख